

- Faculty of Engineering : B.Tech. (GBTU Code 473)
- Faculty of Management : MBA (GBTU Code 620), BBA
- College of Polytechnic : Polytechnic
- College of Teacher's Education
- Institute of Industrial Training



GCRG Group of Institutions

(Approved by AICTE, NCTE, NCVT & Affiliated to GBTU Lucknow, BTE UP Lucknow, SCERT UP Lucknow, Lucknow University Lucknow, NCVT New Delhi)

Students' Notice

Dated : February 21, 2013

To: All Students of B.Tech & MBA Ist, IInd, IIIrd and IVth Year.

Sub.: Correction in Students Academic Records of Gautam Buddh Technical University, Lucknow.

All the students of **B.Tech & MBA Ist, IInd, IIIrd and IVth year** are hereby informed that if any student's academic records such as Name, Fathers Name are not correct, those students submit application by mentioning their correction to **to Mr. Ashish Yadav before February 28, 2013 at Registrar Office**. The student will attach following document with the application:

- (1) High School Mark sheet or Certificate photocopy
- (2) GBTU Admit card photocopy
- (3) Photocopy of Application for receiving
- (4) Marksheet(s) of B.Tech/ MBA (as applicable) **in Original** and their photocopy.

Failing above their Name correction application would not be accepted and forwarded to the University. **Not any Application will be accepted after February 28, 2013 in any case.**

समस्त बी०टेक०, एम०बी०ए० प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों को सूचित किया जाता है कि यदि उनका नाम, पिता का नाम अथवा कोई भी सूचना विश्वविद्यालय के अभिलेखों में गलत अंकित हो गई है तो वे दिनांक 28 फरवरी 2012 तक अपना प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय में श्री आशीष यादव के पास जमा करके उसकी पावती प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना-पत्र के साथ निम्न प्रपत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- (1) हाई-स्कूल की मार्कशीट अथवा प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
- (2) गौ०बु०प्रा०वि० के प्रवेश-पत्र की छायाप्रति।
- (3) प्रार्थना-पत्र की छायाप्रति पाती हेतु।
- (4) बी०टेक० / एम०बी०ए० की मार्कशीट मूल रूप में एवं उसकी छायाप्रति।

दिनांक 28 फरवरी 2013 के उपरान्त कोई भी प्रार्थना-पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Ad/-

Registrar

Copy to:

1. The Chairman, for kind information
2. Director, GCRG Group, for kind information
3. Dean, for assuring the proper circulation of notice to respective Department.
4. System administrator for uploading notice on the website.
5. Students Notice Board of the Department
6. Guard File